



प्रेस नोट थाना पिनाहट जनपद आगरा ।

थाना पिनाहट पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद...

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा गये आदेशानुसार जनपद में अवैध शराब, असलाह, जुआ, सट्टा, वाहन चोरी आदि आपराधिक अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी पिनाहट के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पिनाहट को टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

इसी क्रम में दिनांक 05.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन हेतु चैकिंग की जा रही थी । चैकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि कुठ व्यक्ति चोरी की मोटर साइकिल बेचने की फिराक में गुर्जा वासुदेव पुलिया पर खड़े हैं । यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं ।

➤ पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

मुखबिर खास द्वारा प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम तत्काल बताये स्थान पर पहुँची । पुलिया पर खड़े अभियुक्तों को चारों ओर से घेर कर एक बारगी दबिश देकर 02 अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, 01 अभियुक्त मोनू पुत्र नामालूम कस्बा+थाना पिनाहट जनपद आगरा मौके के फायदा उठाकर भागने में सफल रहा । अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद चोरी की मोटर साइकिल बरामद की गयी ।

➤ पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा अपना नाम 01. सचिन पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम देवगढ़ थाना पिनाहट व 02. अंकित पुत्र मुनेन्द्र निवासी ग्राम रामपुर बिठौली थाना पिढौरा जनपद आगरा बताया । बरामद मोटर साइकिल के बारे में बताया कि 01. पैशन प्रो मोटर साइकिल UP80VQ4889 व 02. हीरो एचएफ डीलक्स UP80DV5530 मोटर साइकिल हम लोगों ने मिलकर थाना डौकी क्षेत्र से चोरी की थी तथा हम तीनों मोटर साइकिल को बेचने के उद्देश्य से यहाँ खड़े थे ।

अभियुक्तगण से बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पिनाहट पर मु0अ0सं0 87/2021 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 411/414 भादवि पंजीकृत किया गया ।

➤ गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-





01. सचिन पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम देवगढ़ थाना पिनाहट जनपद आगरा ।
02. अंकित पुत्र मुनेन्द्र निवासी ग्राम रामपुर बिठौली थाना पिढौरा जनपद आगरा ।

➤ फरार अभियुक्त:-

01. अभियुक्त मोनू पुत्र नामालूम कस्बा+थाना पिनाहट जनपद आगरा ।

➤ बरामदगी का विवरण:-

01. 02 अदद मोटर साइकिल चोरी की ।

➤ आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 170/21 धारा 379 भादवि थाना डौकी जनपद आगरा ।
02. मु0अ0सं0 87/2021 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 411/414 भादवि जनपद आगरा ।

➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार चतुर्वेदी थाना पिनाहट जनपद आगरा ।
02. उ0नि0 श्री विश्वदीप थाना पिनाहट जनपद आगरा ।
03. कां0 सुमित कुमार, कां0 कृष्णगोपाल, कां0 विपिन कुमार, कां0 विमल कुमार थाना पिनाहट जनपद आगरा ।



मीडिया सेल जनपद आगरा ।

